



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, बुध्दतिवार, नवम्बर 5, 1981/कार्तिक 14, 1903

No. 359]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 1981/KARTIKA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1981

सं. 183/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सं.कां.वि. 580(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 161/75-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1975 को इसके द्वारा विरुद्ध करती है।

[कां.सं. 65/1/81-सीएक्स2]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th November, 1981

No. 183/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 580(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944,

917 GI/81

the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 161/75-Central Excises, dated the 1st July, 1975.

[F. No. 65/1/81-CX-2]

सं.कां.वि. 581(अ) :— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मव संख्यांक 3 की उपमद (i) और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96-ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 90/70 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970 को अधिष्ठात करते हुए, उपरोक्त पहली अनुसूची की मव संख्यांक 3 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली चाय पर शुल्क की निम्नलिखित दरें, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में उस सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ में वर्णित जोन के सम्बन्ध में, विनिर्दिष्ट हैं नियत करती है, अर्थात् :—

जोन	उत्पादन का स्थान	प्रति किलोग्राम शुल्क की दर
1	2	3
		रु०
1.	प्रथम राज्य में गोलपारा और कछार के जिले; त्रिपुरा राज्य के सभी क्षेत्र;	0.40

(1685)

1	2	3
	जलपाईगुड़ी जिले और दार्जिलिंग जिले के अन्य उप-खंडों को छोड़कर पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी और कलिमपीगं उपखंड और अधिकारिता सूची संख्यांक 31, 29, 33, 20, 21, 22, 23 और 24 जिनमें दार्जिलिंग जिले के कुसिभ्रोंग उपखंड में कुसिभ्रोंग पुलिस थाने की साहमलबेरी और मेरीयानबेरी चाय संपदा और पश्चिमी दिनाजपुर जिला, और अन्य जिले समाविष्ट हैं और तमिलनाडु राज्य में मीलगिरी जिले का गुडालूर ताल्लुक, और कन्याकुमारी और तिरुनेवेली के जिले; केरल राज्य के कोट्टायाम जिले के पीरमाडे, मीना-षिल और कंजीरापल्ली ताल्लुके और एरनाकुलम, त्रिवेन्द्रम, कवीरान, कन्नानोर कोजीकोड, त्रिचूर और पालघाट जिले।	
2.	असम राज्य में नवगांव और कामरूप जिले; पश्चिमी बंगाल राज्य में जलपाईगुड़ी जिला; कर्नाटक राज्य में हसन, चिकनमगलूर और कुर्ग जिले; केरल राज्य में कोट्टायाम जिले के बेबीकुलम और उवमनचोलई ताल्लुक; तमिलनाडु राज्य में कोयम्बतूर और मदुर जिले;	0. 60
3.	अधिकारिता सूची सं० 31, 29, 33, 20, 21, 22, 23 और 24, जिसमें दार्जिलिंग जिले के कुसिभ्रोंग उपखंड में कुसिभ्रोंग पुलिस थाने की साहमलबेरी और मेरीयान बेरी चाय संपदा भी समाविष्ट है, के क्षेत्रों को छोड़कर, पश्चिमी बंगाल का सदर उपखंड और कुसिभ्रोंग उपखंड;	1. 25
4.	तमिलनाडु राज्य में गुडालूर ताल्लुक को छोड़कर: मीलगिरी जिला असम राज्य में के तेजपुर उपखंड में और बारंग जिले का मंगलवेई उपखंड में बरसोला सफिल ;	1. 10
5.	तेजपुर उपखंड में बरसोला सफिल और बारंग जिले के मंगलवेई उपखंड को छोड़कर लक्ष्मीपुर सिव-सागर जिले;	1 से 30
6.	बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों सभी क्षेत्र ;	02. 25
7.	जोन सं० 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में सम्मिलित क्षेत्रों से भिन्न भारत के राज्यक्षेत्र के कोई अन्य क्षेत्र ; परन्तु यह कि :-- (1) एक जोन में, दूसरे जोन में उगाई गई हरी परतियों से, विनिर्मित चाय पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की दर वह दर होगी जो उस जोन को, जिसमें ऐसी परतियां उगाई गई थी, लागू है; (2) उत्पादन के जोन पर ध्यान दिए बिना "हरि-चाय" पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की दर 10 पैसे प्रति किलोग्राम होगी; (3) जहां सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी के स्थापित में किसी कारखाने में विनिर्मित चाय उपरोक्त सारणी के स्तम्भ (3)	0. 40

1	2	3
	में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार निर्धारित की जाती है, वहां ऐसी चाय पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क :	
(क)	ऐसे सभी क्षेत्रों की बाबत जो जोन 1 से 3 और 5 से 7 में सम्मिलित हैं, ऐसी दर के दस प्रतिशत की दर से घटा दिया जाएगा;	
(ख)	जोन 4 में सम्मिलित क्षेत्रों की बाबत, साठ पैसे प्रति किलोग्राम होगी,	
	परन्तु शर्त यह है कि--	
(क)	ऐसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य दस हैक्टर से अधिक ऐसी धृति का स्वामी नहीं है जिसमें चाय के पौधों की खेती होती है।	
(ख)	प्रयुक्त की गई परतियां ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी ऐसे उगाने वाले के कृप्य नहीं की गई है जिसकी दस हैक्टर से अधिक ऐसी धृति है जिसमें चाय के पौधों की खेती होती है।	
	स्पष्टीकरण "उगाने वाला" पद के अन्तर्गत तमिल-नाडु सरकारी चाय परियोजना नहीं है।	
(4)	जहां क्रीत-चाय पत्ती कारखाने में विनिर्मित चाय का उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार निर्धारण किया जाता है वहां ऐसी चाय पर उद्ग्रहणीय शुल्क :	
(क)	ऐसे सभी क्षेत्रों की बाबत जो जोन 1 से 3 और 5 से 7 में सम्मिलित हैं, ऐसी दर के दस प्रतिशत की दर से घटा दिया जाएगा;	
(ख)	जोन 4 में सम्मिलित क्षेत्रों की बाबत, साठ पैसे प्रति किलोग्राम होगी,	

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयाजन के लिए "क्रीत-चाय पत्ती कारखाना" पद से वह चाय कारखाना अभिप्रेत जिसने वित्तीय वर्ष 1963-64 के दौरान और उस वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में, जिसमें उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है अपनी हरी परतियों का कम से कम दो तिहाई बाह्य विक्रेताओं से कृप्य किया है।

[फा० सं० 65/1/81-सी एक्स2]

डी० मेहता, अवसर सचिव

No. 184/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 581(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (1) of Item No. 3 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and rule 96-F of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 90/70-Central

Excises, dated the 1st May, 1970, the Central Government hereby fixes the following rates of duty on tea falling under sub-item (1) of Item No. 3 of the said First Schedule as are specified in column 3 of the Table below in relation to the zone mentioned in the corresponding column thereof.

TABLE

Zone	Place of production	Rate of duty per Kilogram (Rupees)
1	2	3
I.	Districts of Goalpara and Cachar in the State of Assam;  All areas in the State of Tripura; Siliguri and Kalimpong sub-divisions and areas in jurisdiction list Nos. 31, 29, 33, 20, 21, 22, 23 and 24 comprising Simulbarie and Marlonbarie Tea Estates of Kurseong, Police Station in Kurseong sub-division of the district of Darjeeling, and the district of West Dinajpur and other districts, in the State of West Bengal excluding the districts of Jalpaiguri and other sub-divisions of the district of Darjeeling; Gudalur taluks of the district of Nilgiris, and the districts of Kanya Kumari and Tirunelveli, in the State of Tamil Nadu;  Peermade, Meenachhal and Kanchirapalli talukas of the district of Kottayam, and districts of Ernakulam, Trivandrum, Qullon, Cannanore, Kozhikode, Trichur and Palghat, in the State of Kerala;	0.40
II.	Districts of Nowgaon and Kamrup in the State of Assam;  Districts of Jalpaiguri in the State of West Bengal;  Districts of Hassan, Chickmagalur and Coorg in the State of Karnataka; Davikulam and Udmancholai talukas of the district of Kottayam in the State of Kerala; Districts of Coimbatore and Madurai in the State of Tamil Nadu.	0.60
III.	The Sadar sub-division and Kurseong sub-division excluding the areas in the jurisdiction list Nos. 31, 29, 33, 20, 21, 22, 23 and 24 comprising Simulbarie and Marionbarie and tea Estates of Kurseong Police Station in Kurseong sub-division of the district of Darjeeling in the State of West Bengal.	1.25
IV.	District of Nilgiris excluding Gudalur taluka in the State of Tamil Nadu; Barsola Circle in Tezpur, sub-division and Mangal Dai sub-division of the district of Darrang in the State of Assam.	1.10

1	2	3
V.	Districts of Lakhmipur and Sibsagar and Darrang excluding Bersola Circle in Tezpur Sub-Division and Mangaldai Sub-division of the district of Darrang.	1.30
VI.	All areas in the States of Bihar, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh.	0.25
VII.	Any other areas in the territory of India other than areas included in zones I, II, III, IV, V and VI.	0.40

## Provided that—

- (i) the rate of duty leviable on tea manufactured in one zone from green leaves grown in another zone shall be the rate applicable to the zone in which such leaves were grown;
- (ii) irrespective of the zone of production, the rate of duty leviable on 'Green Tea' shall be 10 paise per kilogram;
- (iii) where the tea manufactured in a factory owned by a co-operative society registered under any law relating to co-operative societies is assessed according to the rate specified in column 3 of the said Table, the duty leviable on such tea shall—
  - (a) in respect of all areas included in zones I to III and V to VII, be reduced by ten per cent of such rate;
  - (b) in respect of areas included in zone IV, be sixty paise per kilogram,
 subject to the conditions—
  - (a) that no member of such co-operative society owns a holding exceeding ten hectares under cultivation of tea plants; and
  - (b) that the green-leaf used is not purchased by such co-operative society from any grower who has a holding exceeding ten hectares under cultivation of tea plants.

Explanation.—The expression "Grower" does not include the Tamil Nadu Government Tea Project;

- (iv) where the tea manufactured in a bought-leaf factory is assessed according to the rate specified in column 3 of the said table, the duty leviable on such tea shall—
  - (a) in respect of all areas included in zones I to III and V to VII be reduced by ten per cent of such rate;
  - (b) in respect of areas included in zone IV be sixty paise per kilogram.

Explanation.—For the purpose of this notification, the expression "bought-leaf factory" means a tea factory which has purchased not less than two-thirds of its green-leaf from outside sellers during the financial year 1963-64 and in the financial year immediately preceding that in which the duty is levied.

[F. No. 65/1/81-CX-2]  
D. MEHTA, Under Secy.

